

## एमएसएमई - विकास संस्थान, राँची हिन्दी कार्यशाला का कार्यवृत्त

एमएसएमई-विकास संस्थान, राँची द्वारा दिनांक -18 मार्च, 2020 को हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर निदेशक (प्रभारी) श्री पी.के. गुप्ता ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। श्री प्रमोद कुमार, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक सह नामित राजभाषा अधिकारी ने कार्यशाला में अपने स्वागत संबोधन में सभी प्रतिभागियों का अभिनंदन किया तथा हिन्दी कार्यशाला के उद्देश्य पर प्रकाश डाला।

निदेशक (प्रभारी) महोदय ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों से हिन्दी के शत-प्रतिशत लक्ष्य को हासिल करने हेतु आह्वान किया। उन्होंने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को हिन्दी के महत्व एवं इसके व्यावहारिक प्रयोग में आने वाली कठिनाईयों का वर्णन करते हुए इसके सरल प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया।

श्री प्रमोद कुमार, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक ने कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी भाषा के प्रयोग पर बहुत ही उपयोगी जानकारी रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने कार्यालयीन पत्राचार के प्रकार एवं उनके प्रारूपों के बारे में सोदाहरण चर्चा की। टिप्पण एवं प्रारूपण में होनेवाली सामान्य अशुद्धियों से सबको अवगत कराया। एक अच्छी टिप्पणी के गुणों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने प्रारूपण अथवा मसौदा लेखन में ध्यान देने योग्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए अच्छी गुणवत्ता के टिप्पण एवं प्रारूप लेखन हेतु सबको प्रोत्साहित किया।

कार्यालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया एवं अपने विचार व्यक्त किए। हिन्दी अनुवादक ने प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए उनकी शंकाओं का उचित समाधान किया। उन्होंने मुश्किल शब्दों के स्थान पर सरल शब्दों के प्रयोग पर बल दिया जिससे अनावश्यक दुरुहता से बचा जा सके और भाषा की संप्रेषनीयता बनी रहे।

अंत में हिन्दी अनुवादक, श्री प्रमोद कुमार ने कार्यशाला में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिन्दी कार्यशाला के दौरान उत्साहपूर्ण भागीदारी एवं सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया ।

### हिन्दी कार्यशाला (18मार्च, 2020) के आयोजन से संबंधित कुछ छायाचित्र/झलकियां



हिन्दी कार्यशाला में भाग लेते हुए प्रतिभागी



निदेशक प्रभारी का संबोधन



हिन्दी अनुवादक की प्रस्तुती